

आज दिनांक 26.07.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

दुधारा पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर घर पर कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में एनबीडब्ल्यू, वांछित, जिला बदर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता अकबाल उर्फ बाले पुत्र पुत्र बुद्धन निवासी पिपरा डोमन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत पिपरा डोमन सेमरियावां मार्ग के पास चोरहा नहर पुलिया से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए आज दिनांक 26.07.2022 को समय 11.05 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दिनांक 13.07.2022 से 06 माह हेतु जिला बदर का आदेश निर्गत किया गया था । अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर घर पर लुक छिप कर निवास करने के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/2022 धारा-10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0कां0 रामदरश यादव, हे0कां0 इंद्रजीत यादव ।

सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नामपता प्रभुनाथ मल्लाह पुत्र संतराम निवासी बढयाठाठर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे मय हमराहा

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा तामेश्वरनाथ में बिछड़े बच्चे को परिजनों को किया गया सुपुर्द – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत तामेश्वरनाथ से इवेन्ट संख्या 09102 से कालर ने एक छोटे बच्चे को परिवार से कहीं बिछड़ जाने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बिछड़ गये बच्चे के परिजनों को खोजकर उसकी माता (श्रीमती प्रीती ग्राम तेनुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर) को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर बिछड़ गये बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी काशीनाथ यादव, आरक्षी राजभान यादव, हो0चा0 संजीव कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 वाहनो से 2,97,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया
आज दिनांक 26.07.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 250 वाहनो से 2,97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।